

नकली दूध बनाने का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

मैनपुरी: एक मकान के अंदर लंबे अरसे से बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली दूध बना रहे दो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने मौके से नकली दूध बनाने में प्रयुक्त होने वाला ग्लूकोज पाउडर व रिफाईंड बरामद किया है। थाना औँछा क्षेत्र के गांव बल्लमपुर निवासी रीमन अपने घर में ही डेरी के लिए दूध कलेक्शन सेंटर का संचालन करता है। उसके सेंटर पर पशुपालक रोजाना सैकड़ों लीटर दूध बेचने आते हैं। पुलिस और खाद्य विभाग को सूचना मिल रही थी कि रीमन और उसके भाइयों द्वारा अपने घर में ही नकली दूध तैयार किया जा रहा है। गुरुवार शाम एसओ औँछा राजीव वर्मा अपनी टीम और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके वर्मा व राजीव कुमार के साथ मौके पर पहुंचे तो नकली दूध तैयार करने वाले तीनों भाई भागने लगे। इस दौरान रीमन तो फरार हो गया, लेकिन उसके भाई नाहर व जनवेद पुलिस के हथे चढ़ गए। दोनों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में सफेद ग्लूकोज पाउडर, रिफाईंड, 70 लीटर नकली दूध बरामद किया है। घटना की एफआइआर थानाध्यक्ष ने दर्ज कराई है। दोनों आरोपितों को जेल भेजा गया है। ऐसे तैयार करते थे नकली दूध: पकड़े गए आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे इलेक्ट्रिक मिक्सर में रिफाईंड और ग्लूकोज को अच्छी तरह से मिलाते हैं। उसके बाद तैयार पेस्ट को पानी में मिलाकर दूध तैयार करते हैं। इस दूध को पशुपालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए दूध में मिलाकर डेरी पर भेज देते हैं। बरामद ग्लूकोज की जांच कराएगी पुलिस: मौके से बरामद ग्लूकोज में कोई हानिकारक पदार्थ तो नहीं मिला हुआ है। इसे लेकर भी संदेह जताया जा रहा है। मामले की तह में जाने के लिए पुलिस ने बरामद ग्लूकोज को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजने का निर्णय लिया है। बरामद नकली दूध की भी होगी जांच: अनुमान लगाया जा रहा है कि बरामद ग्लूकोज, रिफाईंड के अलावा भी नकली दूध में कोई केमिकल मिलाया जा रहा था। नकली दूध में कोई और केमिकल मिलाया गया है या नहीं, इसे लेकर भी जांच कराने का निर्णय लिया गया है। सेहत के लिए खतरनाक: जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन डा. जेजे राम ने बताया कि केमिकल युक्त दूध सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। यह लिवर और अन्य गंभीर रोगों की वजह बन सकता है।

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/mainpuri-nakli-milk-factory-open-two-arrest-22936809.html>